



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 166]

No. 166]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1979/चैत्र 28, 1901

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1979/CHAITRA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

का. आ. 210(अ).—मध्य प्रदेश सरकार ने संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1978 की अनुसूची 12 में दिए गए निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में निर्दिष्ट कतिपय प्रादेशिक खंडों की सीमा और नामों में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं ;

और, निर्वाचन आयोग, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1978 को अद्यतन बनाने के लिए अनुसूची 12 में दिए गए उन निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के कारण में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित श्रद्धियां करता है :—

1. उस अनुसूची के भाग ख में—

(1) 73-चरहट में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, “गोपबनास तहसील में रामपुर और चरहट रा. नि. म. और अमीलिया रा. नि. म. के पटवारी हल्का 39 से 46 तक।” प्रविष्टियां रखी जाएंगी :

(2) 74-सीधी में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर “गोपबनास तहसील में देवगांवा और सीधी (गिर्द) प्रथम रा. नि. म. और अमीलिया रा. नि. म. (पटवारी हल्का 39 से 40 को छोड़कर), और सीधी (गिर्द) द्वितीय रा. नि. म. के पटवारी हल्का 90 और 91” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(3) 75-गोपदानास में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, “गोपदानास तहसील में समीरिया, हनुमानगढ़ और ताला रा. नि. म. और सीधी (गिर्द) द्वितीय रा. नि. म. (पटवारी हल्का 90 और 91 को छोड़कर), सधा मभौली रा. नि. म. के पटवारी हल्का 155 और 157 से 162 तक।” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(4) 76-धौनी अ. ज. आ. में, निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर गोपदानास तहसील में मझास और कुशमी रा. नि. म. तथा मभौली, रा. नि. म. (पटवारी हल्का 155 और 157 से 162 तक को छोड़कर) तथा उस क्षेत्र में स्थित बन ग्राम ; तथा देवसर तहसील में धौहनी और बरगांवा रा. नि. म.।” प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(5) 77-देवसर (अ. ज. आ.) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर “देवसर तहसील (धौहनी और बरगांवा रा. नि. म. को छोड़कर)।” प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

ii) उक्त अनुसूची के अंत में विद्यमान टिप्पणी (1) के स्थान पर,

टिप्पणी.—(1) इस सारणी में किसी जिले, तहसील, राजस्व निरीक्षक मण्डल पटवारी हल्का, वार्ड या अन्य प्रादेशिक खण्ड के किसी संदर्भ का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो उस जिले, तहसील, राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का, वार्ड या अन्य प्रादेशिक खण्ड के अन्तर्गत 1977 के अगस्त मास के प्रथम दिन को सम्मिलित था। परन्तु (1) इन्दौर शहर और ग्वालियर नगर के वार्डों के संदर्भ का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो कि सन् 1973 के अगस्त मास के 15वें दिन को सम्बद्ध वार्ड में समाविष्ट था। और (2) सीधी जिले में प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो उससे सम्बद्ध इकाइयों के अन्तर्गत सन् 1978 के जुलाई मास के प्रथम दिन को सम्मिलित था।”

[सं. 282/1/म. प्र./79]

आदेश से

बी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1979

S.O. 210(E).—Whereas the Government of Madhya Pradesh have intimated some alterations in the names and boundaries of certain territorial divisions referred to in the description of constituencies given in Schedule XII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of the extent of constituencies referred to in Schedule XII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, to bring the Order up to date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

I. In Part B of the Schedule—

- (1) In 73-Churahat, in the description of the extent of the constituency, for the existing entries substitute the entries “Rampur and Churahat RICs and PCs 39 to 46 in Amiliya RIC in Gopadbanas tahsil”;
- (2) In 74-Sidhi, in the description of the extent of the constituency, for the existing entries substitute the entries “Deogawan and Sidhi (Gird) First RICs and Amiliya RIC (excluding PCs 39 to 46) and P.Cs. 90 and 91 in Sidhi (Gird) Second RIC in Gopadbanas tahsil.”;
- (3) In 75-Gopadbanas, in the description of the extent of the constituency, for the existing entries substitute the entries “Semariya, Hanumangarh and Tala RICs and Sidhi (Gird) Second RIC (excluding P.Cs. 90 and 91) and PCs 155 and 157 to 162 in Majhauri RIC Gopadbanas tahsil.”;
- (4) In 76-Dhauhani (ST), in the description of the extent of the constituency, for the existing entries substitute the entries “Madwas and Kushmi RICs and Majhauri RIC (excluding P.Cs 155 and 157 to 162) in Gopadbanas tahsil and the Forest Villages in the area; and Dhauhani and Bargawan RICs in Deosar tahsil.”;
- (5) In 77-Deosar (ST), in the description of the extent of the constituency, for the existing entries substitute the entries “Deosar Tahsil” (excluding Dhauhani and Bargawan RICs.).

II. For the existing Note (1) at the end of the Schedule substitute the Note (1) “Any reference in this Part to a district, tahsil, revenue inspector circle, patwari circle, ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that district, tahsil, revenue inspector circle, patwari circle, ward or other territorial division on the 1st day of August, 1977, except that the reference to (1) wards in Indore City and Gwalior town shall be taken to mean the area comprised within the respective wards on the 15th day of August, 1973; and (2) administrative units in Sidhi District shall be taken to mean the area comprised within the respective units as on the 1st day of July, 1978.”

[No. 282/1/MP/79]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.